

Hindi News | Mp | Indore | mp news indore jews in city show caged birds in public team from delhi raided their house for rescue

## इंदौर / सागर जूस में डीआरआई टीम का छापा, बिना अनुमति छोटे पिंजरों में भरकर रखे थे 36 कीमती पक्षी



- गौराकुंड चौराहे स्थित सागर जूस के संचालक के पास से कई देशी-विदेशी पशु-पक्षी बरामद

इंदौर. गौराकुंड चौराहा स्थित सागर जूस सेंटर पर शनिवार को दिल्ली से डीआरआई (डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस) की टीम ने छापा मारा। टीम ने छापे में यहां से 36 विदेशी पक्षी जब्त किए। इनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। सेंटर संचालक ने इन पक्षियों को महज तीन से पांच फीट तक के पिंजरों में रखा हुआ था।



टीम ने सुबह जल्दी पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। लगभग चार घंटे चली कार्रवाई के बाद टीम ने सभी पक्षियों को इंदौर के कमला नेहरु प्राणी संग्रहालय भेज दिया। बताते हैं कि गंभीर शिकायतें दिल्ली पहुंची थी, इसके बाद ही टीम के सदस्यों ने कुछ दिन पहले यहां रैकी की थी। फिलहाल डीआरआई की इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। टीम ने ज्यूस सेंटर पर मौजूदग कर्मचारी, संचालक और उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की है। साथ ही अनुमति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

## विदेशी जानवरों के अवैध चिड़ियाघर पर डीआरआई का छापा, 134 जीव मुक्त

भाषा| May 4, 2019, 07:58 PM IST

इंदौर, चार मई (भाषा) राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने यहां विदेशी मूल के जानवरों के अवैध चिड़ियाघर पर शनिवार को छापा मारा और वहां रखे गये 134 जीवों को मुक्त कराया। इनमें कथित तौर पर तस्करी के जरिये भारत लाये गये स्तनपायी, सरीसृप और पक्षी शामिल हैं। डीआरआई की जारी विज्ञप्ति के मुताबिक शहर की गैर सरकारी संस्था "करुणा सागर" के मल्हारगंज इलाके में चलाये जा रहे अवैध चिड़ियाघर पर मुखबिर की सूचना पर छापा मारा गया। वहां 134 विदेशी जानवरों को कैद कर रखा गया था। उन्होंने बताया कि इस अवैध चिड़ियाघर में रखे गये विदेशी जीवों को मुक्त कराकर स्थानीय कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय भेजा गया, उनमें दक्षिण अमेरिकी मूल का मार्मजेट (बेहद छोटे आकार का बंदर), ऑस्ट्रेलियाई मूल का गिरगिट, ईरानी मूल की पर्शियन बिल्ली, सिंगापुरी मूल का लाल कानों वाला स्लाइडर कछुआ, उत्तरी अमेरिकी मूल की एलिगेटर गार मछली, दक्षिणी अमेरिकी मूल का गिनी पिग (चूहे जैसा दिखने वाला जीव) और दक्षिण अमेरिकी मूल का मकाऊ तोता शामिल हैं। विज्ञप्ति के मुताबिक अवैध चिड़ियाघर चलाने वाली गैर सरकारी संस्था इन विदेशी जीवों की खरीद या आयात के वैध दस्तावेज डीआरआई के सामने पेश नहीं कर सकी। मामले में उचित कानूनी कदम उठाये जायेंगे।

## 134 foreign animals rescued from illegal zoo

Press Trust of India | Indore (MP) May 04, 2019 Last Updated at 21:15 IST

Officials of the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) Saturday raided a zoo here and rescued 134 foreign animals, allegedly brought into the country illegally.

On a tip-off, DRI officials raided the zoo located in Malharganj area, run illegally by the NGO Karuna Sagar, an official release said.

Creatures found in the zoo included a South American Marmoset, Australian Iguanas, a Persian cat, Red Eared Singapore Slider Turtle, North American Alligator Gar, South American Guinea Pig and South American Macaw.

The rescued animals, birds and reptiles were shifted to Kamala Nehru Zoo in the city.

The NGO which was running the zoo could not present legal documents related to import or purchase of these foreign animals, the DRI release alleged, adding that appropriate legal action will be taken against it.